

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +3203
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

थीमेटिक सर्किटों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से रोजगार का सृजन
+3203. श्री प्रदीप कुमार चौधरी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिह्नित किए गए थीमेटिक सर्किटों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार सृजित करने में सक्षम रही है;
- (ख) यदि हां, तो रोजगार के संबंध में सर्किट-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिह्नित क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए स्थानीय कला, हस्तकला, संस्कृति, व्यंजन कला आदि को बढ़ावा देने में सक्षम रही है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय ने अपनी 'स्वदेश दर्शन' योजना के विभिन्न चिह्नित थीमों के अंतर्गत 76 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सृजित परिपथ-वार रोजगार का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है तथापि जुलाई 2019 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा इस योजना का तीसरे पक्ष द्वारा प्रभाव मूल्यांकन किया गया था जिसमें कहा गया है कि 'स्वदेश दर्शन' योजना आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने और निर्माण के चरण में स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजित करने में सक्षम रही है।

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में हाट बाज़ार, एम्फीथियेटर, शिल्प हाट, कारीगर केंद्र, कला निष्पादन हेतु रंगभूमि, कैफेटेरिया, स्मारिका की दुकानें, मल्टी

क्विजीन/स्वदेशी फूड कोर्ट, हस्तशिल्प प्रदर्शनी केंद्र, सांस्कृतिक सह विरासत केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि जैसे हस्तक्षेप शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत हस्तक्षेपों का प्रचालन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय अपनी “आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार” (डीपीपीएच) और “विदेशों में संवर्धन और प्रचार” (ओपीपी) योजनाओं के तहत आवंटित बजट से स्थानीय कला, हस्तशिल्प, संस्कृति, क्विजीन आदि सहित देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है।
